



BizAmp-पूरवोत्तर क्षेत्र के व्यवसायों का संवर्द्धन

हाल ही में लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय द्वारा **NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (NVCFL)** के सहयोग से नगालैंड के दीमापुर में अपने **आत्मनरिभर भारत (SRI) फंड** के तहत **BizAmp** नामक एक आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया गया।

BizAmp क्या है?

- BizAmp देश के पूरवोत्तर क्षेत्र में **पहला आउटरीच प्रोग्राम** है जो **NVCFL के SRI फंड** के माध्यम से **पूंजीगत लाभों को अधिकतम** करने पर केंद्रित है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य पूरवोत्तर राज्यों के **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)** को सशक्त बनाना और SRI फंड के तहत लाभों का उपयोग करके उनके व्यवसायों को बढ़ाना है।
- इस आयोजन में लाभार्थी MSME के लिये अपनी स्टोरी प्रस्तुत करने और अन्य MSME को प्रेरित करने के लिये एक समर्पित फोरम शामिल था।
 - इस कार्यक्रम ने विभिन्न पूरवोत्तर राज्यों के उद्योग सचिवों की उपस्थिति के साथ राज्य और केंद्र सरकार के ठोस प्रयासों को प्रदर्शित किया, जिन्होंने MSME के विकास में सहायता के लिये तैयार की गई विभिन्न नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान की।

SRI फंड के बारे में:

परिचय:

- यह फंड भारत को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सरकार का प्रमुख कार्यक्रम **'आत्मनरिभर भारत'** कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।

उद्देश्य:

- फंड का उद्देश्य विकास में मदद करना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चैंपियन बनना तथा प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करके भारत को आत्मनरिभर बनाना है।

SRI फंड की संरचना:

- SRI फंड एक रणनीतिक निवेश है जो **फंड ऑफ फंड्स** के रूप में कार्य करता है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कंपनियों के बजाय अन्य फंडों में निवेश किया जाता है। SRI फंड की संरचना इस प्रकार है:

- नधि, मद्र फंड और डॉटर फंड संरचना के माध्यम से संचालित होती है।
- एंकर निवेशक के रूप में भारत सरकार के साथ SRI फंड (मद्र फंड) की कुल राशि/कॉर्पस 10,006 करोड़ रुपए है।
- डॉटर फंड भारतीय प्रतभूति और वनिमिय बोर्ड (सेबी) - पंजीकृत श्रेणी I तथा श्रेणी II वैकल्पिक निवेश नधि (Alternate Investment Funds-AIF) हैं।
- डॉटर फंड अधिकांशतः वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फंड हैं।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आने वाले MSME में डॉटर फंड निवेश करते हैं।

प्रबंध प्राधिकरण:

- SRI फंड का प्रबंधन **NVCFL** द्वारा किया जा रहा है।

- **NVCFL** सेबी (AIF) वनिमिय, 2012 के प्रावधानों के तहत श्रेणी II AIF के रूप में सेबी के साथ पंजीकृत है।

MSMEs पर प्रभाव:

- SRI फंड इक्विटी/अर्द्ध-इक्विटी जैसे संरचित साधनों के माध्यम से MSME को विकास पूंजी प्रदान करता है।

पूरवोत्तर भारत में MSME को सशक्त बनाने का क्या महत्त्व है?

- MSME क्षेत्र का पोषण **राष्ट्र की आर्थिक प्रगतिके लिये** महत्त्वपूर्ण है ।
- पूर्वोत्तर भारत में MSME को सशक्त बनाना क्षेत्रीय और राष्ट्रीय **अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को बढ़ाने और आत्मनिर्भरता के लिये** महत्त्वपूर्ण है । MSME रोजगार सृजति कर सकते हैं, नरियात तथा, नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं और ग्रामीण विकास का समर्थन कर सकते हैं ।
- क्षेत्र में MSME को सशक्त बनाने से **स्थानीय समुदायों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को लाभ होता है** ।

पूर्वोत्तर भारत में MSME को सशक्त बनाने के लिये भारत की पहल

- पूर्वोत्तर **MSME कॉन्क्लेव** का आयोजन गुवाहाटी में उद्यमिता और व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिये किया गया था, जिसमें बुनियादी संरचना के निर्माण, बाज़ार लक्षि प्रदान करने, MSME पार्क और टूल रूम स्थापति करने तथा विशेष रूप से पूर्वोत्तर के लिये एक नीतिपेश करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

????????????

प्रश्न.1 वनिरिमाण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की हाल की नीतगित पहल क्या है/हैं? (2012)

1. राष्ट्रीय नविश और वनिरिमाण क्षेत्र की स्थापना
2. 'सगिल वडि क्लीयर्स' का लाभ प्रदान करना
3. प्रौद्योगिकी अधगिरहण और विकास कोष की स्थापना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न 2. नमिनलखिति में से कौन समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है? (2011)

1. स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना
3. शक्ति का अधिकार अधनियिम को लागू करना

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर:(d)

स्रोत: पी.आई.बी.